



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 22]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 24, 2005/माघ 4, 1926

No. 22]

NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 24, 2005/MAGHA 4, 1926

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 24 जनवरी, 2005

सं. 50/2004—2009

फा. सं. 01/92/180/34/एम 05/पीसी II.—विदेश व्यापार नीति, 2004—2009 के पैराग्राफ 2.4 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार, एतद्वारा, प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) में निम्नलिखित संशोधन करते हैं :—

1. पैरा 6.39.1 से 6.39.13 के तहत शामिल फास्ट ट्रैक क्लियरेंस प्रक्रिया को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा:-

“फास्ट ट्रैक क्लियरेंस प्रक्रिया

पात्रता	6.39.1	विदेश व्यापार नीति के तहत ई ओ यू, जिनके पास स्तर धारक प्रमाण-पत्र है, फास्ट ट्रैक क्लियरेंस प्रक्रिया के पात्र होंगे।
आयात कार्गो की जांच	6.39.2	स्तर धारक एकक को आयात के पत्तन पर आयात कार्गो की जांच से छूट होगी। तथापि, सीमा शुल्क/केन्द्रीय/उत्पाद शुल्क के क्षेत्राधिकार आयुक्त बेतरतीब आधार पर एकक के कार्यस्थल पर खेपों की जांच करेगा।
माल की घरेलू खरीद और माल का आयात	6.39.3	जिन एककों का पिछले वित्तीय वर्ष में वास्तविक निर्यात कारोबार 15 करोड़ रुपये और इससे अधिक है उन्हें क्षेत्राधिकार प्राप्त सीमाशुल्क/ केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकारी द्वारा जारी पूर्व अधिप्रमाणित खरीद प्रमाण-पत्र के आधार पर शुल्क के भुगतान के बिना वस्तुओं का आयात करने की अनुमति होगी।

फैक्स मशीन/कम्प्यूटर लगाना	6.39.4	पात्र ई ओ यू बान्डेड परिसरों के बाहर प्रशासनिक/पंजीकृत कार्यालय में एक फैक्स मशीन और दो कम्प्यूटर लगा सकते हैं, इसकी पूर्व सूचना सीमा शुल्क या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के क्षेत्राधिकार प्राप्त सहायक/उपायुक्त को दी जाए।
डी जी सेटों की खरीद	6.39.5	यूनिट की वास्तविक आवश्यकता सहित क्षमता के अनुरूप डी जी सैट की खरीद अनुमत होगी जिसकी सूचना विकास आयुक्त और क्षेत्राधिकार प्राप्त केन्द्रीय उत्पाद प्राधिकारी को देनी होगी।
पूंजीगत माल को अस्थाई रूप से हटाना	6.39.6	पात्र ई ओ यू एकक अपना पूंजीगत माल और इनके हिस्से, मरम्मत के लिए हटा सकते हैं, इसकी पूर्व सूचना सीमाशुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के क्षेत्राधिकार प्राप्त सहायक/उपायुक्त को देनी होगी।
डीटीए में अस्वीकृत माल का क्लियरेंस	6.39.7	अस्वीकृत माल को डीटीए क्लियरेंस के अनुमति के लिए आवेदन प्राथमिकता के आधार पर क्षेत्राधिकार प्राप्त उत्पाद शुल्क प्राधिकारी द्वारा विचार किया जाएगा।
नमूनों को व्यक्तिगत रूप से ले जाना	6.39.8	ईओयू स्तर धारकों द्वारा रत्न एवं आभूषण के नमूनों को व्यक्तिगत रूप से ले जाने की अनुमति पैरा 6.24 में निर्धारित सीमा के अनुसार दी जायेगी। इसके लिए विकास आयुक्त/सीमा शुल्क/केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकारी की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी।
गतिविधियाँ, जिनके लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं है	6.39.9	स्तर धारक की निम्नलिखित गतिविधियों के सम्बंध में विकास आयुक्त अथवा क्षेत्राधिकार प्राप्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकारी की अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। तथापि, इसकी पूर्व सूचना देनी होगी। (i) विदेश व्यापार नीति के पैरा 6.8 (क) के अनुसार तैयार उत्पादों की डीटीए बिक्री (ii) प्रदर्शनी में भाग लेना (iii) प्रक्रिया पुस्तक, खण्ड-1 के पैरा 6.24 की शर्तों को पूरा करने के तहत निर्यात संवर्धन के दौरों के लिए रत्न एवं आभूषणों को व्यक्तिगत रूप से ले जाना।

इसे लोकहित में जारी किया जाता है।

के. टी. चाको, महानिदेशक, विदेश व्यापार

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 24th January, 2005

No. 50/2004—2009

F. No. 01/92/180/34/AM 05/PC II.—In exercise of powers conferred under paragraph 2.4 of the Foreign Trade Policy, 2004—2009, the Director General of Foreign Trade hereby makes the following amendments in the Handbook of Procedures (Vol. I) :—

1. The Fast Track Clearance Procedure covered under para 6.39.1 to 6.39.13 shall be substituted by the following:

“FAST TRACK CLEARANCE PROCEDURE

Eligibility	6.39.1	EOUs having a status holder certificate under the Foreign Trade Policy shall be eligible for the Fast Track Clearance Procedure.
Examination of Import Cargo	6.39.2	The status holder units shall be exempted from examination of import cargo at the Port of import. The jurisdictional Commissioner of Customs / Central Excise may, however, examine consignments at the unit's place on random basis.
Domestic procurement and import of goods	6.39.3	The units having physical export turnover of Rs. 15 crores and above in the preceding financial year shall be allowed to import goods without payment of duty on the basis of pre-authenticated procurement certificate issued by the jurisdictional Customs/ Central Excise Authority.
Installation of Fax Machine/ Computers	6.39.4	The eligible EOUs may install one fax machine and two computers in their administrative / registered office outside the bonded premises under prior intimation to the jurisdictional Asst / Deputy Commissioner of Customs or Central Excise.
Procurement of DG sets	6.39.5	Procurement of DG set of capacity commensurate with the actual requirement of the unit shall be permitted under intimation to the Development Commissioner and the jurisdictional Central excise Authority.
Temporary removal of Capital Goods	6.39.6	The eligible EOU units may remove their capital goods or parts thereof for repairs under prior intimation to the jurisdictional Asstt. / Deputy Commissioner of Customs or Central Excise.
Clearance of rejects in DTA	6.39.7	Request for permission for DTA clearance of rejects shall be considered by the jurisdictional Excise authority on priority basis.
Personal carriage of samples	6.39.8	Personal carriage of samples of Gems & Jewellery by status holder EOUs are allowed subject to the limit fixed in Para 6.24 without a need for prior permission from Development Commissioner/ Customs / Central Excise.

Activities which do not require permission	6.39.9	<p>In respect of the following activities of a status holder, permission will not be required from the Development Commissioner or the jurisdictional Central Excise authority. However, prior intimation thereof needs to be given.</p> <p>(i) DTA sale of finished products in terms of para 6.8(a) of FTP (ii) Participation in exhibition (iii) Personal carriage of Gems & Jewellery for export promotion tours subject to fulfillment of conditions of para 6.24 of Handbook (Vol.1)."</p>
---	---------------	--

This issues in Public interest.

K. T. CHACKO, Director General of Foreign Trade